

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 10-04-2021 को जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़-भाड़ वाली जगहों, आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों/वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई तथा आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की गयी, कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों को मास्क धारण करने हेतु जागरूक किया गया।

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021

**जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 06 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी।**

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.04.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 06 शोहदे पकड़े गये। शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावों तथा विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत आज प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड सिद्धार्थ नगर तथा जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी।

### **एण्टी रोमियो टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021

आज दिनांक 10.04.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में उ.नि. श्री रमाशंकर राय, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

**श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना उसका बाज़ार व थाना कोतवाली लोटन एवं थाना मोहाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया ।**

आज दिनांक 10.04.2021 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना उसका बाज़ार व थाना कोतवाली लोटन एवं थाना मोहाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, महोदय द्वारा सर्वप्रथम थाना उसका बाज़ार में चुनाव संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया एवं चुनाव रजिस्टर की चेकिंग की गई तथा बीट-आरक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके बीट-क्षेत्र के रजिस्टर की गहनता से जांच करते हुए लगभग 10 गांव में से एक-एक संभ्रांत व्यक्तियों से बीट आरक्षियों द्वारा अपने-अपने मोबाइल से वार्ता-लाप कराया गया, वार्ता-लाप के क्रम में उनके गांव के संबंध में जानकारी तथा चुनाव संबंधी किसी भी समस्या के पाए जाने पर तत्काल अवगत कराने हेतु बताए, तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना पर उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण से वार्तालाप कर आगामी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अपनी-अपनी ड्यूटी पर पूरी तन्मयता ईमानदारी तथा कोरोना वायरस से बचाव हेतु सदैव मास्क धारण करने, तथा बार-बार हाथ धोने एवं हाथों को सैनिटाइजिंग करने हेतु भी निर्देशित किया गया, इसके उपरांत महोदय द्वारा थाना कोतवाली लोटन पर पहुंचकर कोविड हेल्प डेस्क की गहनता से जांच की गई, तथा ग्राम-प्रहरियों से वार्ता-लाप किया गया, चुनाव संबंधी रजिस्टर की गहनता से जांच की गई, उपस्थित समस्त बीट प्रभारी हल्का प्रभारी एवं बीट आरक्षियों से वार्ता-लाप किया गया, तथा समस्याओं के बारे में भी पूछा गया एवं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया. तत्पश्चात नव-निर्माणाधीन महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया, तथा वहां पर स्थापित हैंड्स फ्री हैंड-वॉश एवं सैनिटाइजिंग मशीन की भी जांच की गई, तथा कस्बे में पैदल गस्त कर जनता को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक एवं पंचायती चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु आश्वासन भी दिया गया, इसके पश्चात महोदय द्वारा थाना मोहाना पर पहुंचकर चुनाव संबंधी सभी तैयारियों का जायजा लिया गया, एवं चुनाव संबंधित रजिस्टर आदि की गहनता से जांच किया गया तथा महोदय द्वारा थानाध्यक्ष मोहाना को, समस्त मांगी गई सूचनाओं को तत्समय भेजने हेतु भी निर्देशित किया गया ।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

**सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पैसा बांटा जा रहा था, का संज्ञान लेकर थाना शोहरतगढ़ पुलिस बल द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध की गयी विधिक कार्यवाही ।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.04.2021 को शोहरतगढ़ पुलिस बल द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पैसा बांटा जा रहा था । उक्त वीडियो की जांच किया गया, तो वायरल वीडियो ताबिज अली पुत्र श्री याकूब सावत निवासी मधवापुर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर का पाया गया । जिनके(ताबिज अली, उपरोक्त) द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत लागू आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने पक्ष में वोट देने हेतु परितोषण दिया जा रहा था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नं. 54/21 धारा 171-E भा.द.वि. पंजीकृत कर लिया गया है । अभियुक्त ताबिज अली के विरुद्ध 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा रही है ।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

**थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त धारा 354/323/504 भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया ।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व श्री दिनेश चंद्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया के नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2021 को मु0अ0सं0 33/21 धारा 354/323/504 भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट से संबंधित अभियुक्त को अंदर 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिद्धार्थनगर/ जेल भेजा गया ।



**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 09.04.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. अभिमन्यु सिंह मय टीम द्वारा साप्ताहिक बाजार खुनुवा के पास से 01 नफर अभियुक्त को 34 शीशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 072/21, धारा 60/63 Ex.Act. पंजीकृत कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

प्रमोद कुमार पुत्र अच्छे लाल सा. नीवीदोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

**बरामदगी**

34 शीशी अवैध नेपाली शराब

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. उ.नि. अभिमन्यु सिंह चौकी प्रभारी खुनुवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. हेका. देवचन्द चौकी खुनुवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

**थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में उप जिलाधिकारी महोदय उत्कर्ष श्रीवास्तव इटवा व श्री रमेश चंद्र पांडेय क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2021 को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत 01 अभियुक्त को मु0अ0सं0 39/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. इंद्रावती पत्नी कन्हैया साकिन अशोगवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

**बरामदगी का विवरण-** 20 लीटर कच्ची शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. उप निरीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार
02. आबकारी उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कनौजिया
03. आबकारी हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार
04. का0 राहुल श्रीवास्तव।
05. हेड कांस्टेबल शमशेर खान
06. महिला कांस्टेबल प्रतिभा सिंह

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

**थाना मिश्रौलिया पुलिस ने वाद संख्या 631/16 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वारंटी को किया गिरफ्तार”**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “ वारंटी” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पांडे, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही –



आज दिनांक 10.04.2021 को श्री अजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया के नेतृत्व थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा वाद संख्या 631/16 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बन्धित निम्न वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**वारंटी का नाम पता –**

1. केदार पुत्र जगन्नाथ
2. विक्रम पुत्र केदार साकिन सिहूनिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

सराहनीय कार्य- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

**मोहाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा धारा 11 पशु क्रूरता अधि० के तहत एक अभियुक्त को 08 अदद भैंस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में व श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.04.2021 को थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम लिलाडिहवा से धारा 11 पशु क्रूरता अधि० के तहत एक अभियुक्त अर्जुन साहनी पुत्र चिन्नु प्रसाद साहनी निवासी दुल्हा दरम्यानी टोला पंडितपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर मु०अ०स० 70/2021 पंजीकृत किया गया तथा उसके कब्जे से 08 अदद भैंस व भैंस के बच्चों को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ०नि० शिवनारायण सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. हे०का० दिनेश त्रिपाठी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. उ० नि० संदीप एसएसबी
4. का० दुर्गेश यादव एसएसबी
5. का० अमित कुमार सिंह एसएसबी
6. का० कुलदीप सिंह एसएसबी

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-अप्रैल-2021**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अरुण चन्द, क्षेत्राधिकारी बाँसी व श्री ब्रम्हा गौड़ प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा, सि०नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेसरहा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 10.04.2021 को श्री ब्रम्हा गौड़, प्रभारी निरीक्षक खेसरहा के नेतृत्व में उ.नि.श्री अजय कुमार यादव, उप निरीक्षक श्री सुभाष प्रजापति मय हमराह द्वारा अभियुक्त के पास से 1 अदद नाजायज देशी तमंचा 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 39/21 धारा 3/25 A. Act पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

**‘गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण’ -**

1. छोटू पुत्र महंगी निवासी सुबही कनपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

**‘गिरफ्तार करने वाली टीम’**

1. उ.नि. श्री अजय कुमार यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि. श्री सुभाष प्रजापति थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. का. राजालाल निषाद थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर